



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]
No. 15]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2003/पौष 24, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2003/PAUSA 24, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2003

6 प्रतिशत भारत सरकार यूटीआई विशेष बांड, 2010 का निर्गम

एफ. सं. 4/21/डब्ल्यू एंड एम/2002.—भारत सरकार एतद्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2003 को 700 करोड़ रूपए की कुल (नामिनल) राशि के भारत सरकार यूटीआई विशेष बांड 2010 (जिन्हें इसके बाद संक्षिप्त रूप में विशेष बांड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 6 प्रतिशत का निर्गम करती है।

1. विशेष बांड में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा

केवल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद “यूटीआई” के रूप में उल्लिखित किया गया है) विशेष बांडों में अभिदान की पात्र होगी और विशेष बांडों में उनका अभिदान उसी राशि की सीमा तक सीमित होगा जिसे भारत सरकार ने आश्वासित लाभ योजनाओं में कमी के कारण उनकी देयताओं की पूर्ति हेतु आवंटित किया है। बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित अन्य कोई व्यक्ति विशेष बांडों में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

2. मूल्य

विशेष बांड प्रति 10,000 रूपए (नामिनल) के लिए सममूल्य पर अर्थात् 10,000 रूपए पर जारी किए जाएंगे।

3. आवेदन पत्र

विशेष बांड यूटीआई से प्राप्त आवेदन पत्र पर अनुबंध में दिए गए प्रपत्र के अनुसार जारी किए जाएंगे।

4. प्रतिभूति का स्वरूप

विशेष बांड भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों में धारित सहायक सामान्य बही लेखा में क्रेडिट द्वारा जारी किया जाएगा।

5. कार्यकाल का प्रारम्भ और वापसी अदायगी की तारीख

विशेष बांडों का कार्यकाल 14 जनवरी, 2003 से शुरू होगा। विशेष बांडों पर ब्याज कार्यकाल की प्रारम्भ की तारीख से मिलेगा। विशेष बांडों की वापसी अदायगी 14 जनवरी, 2010 को की जाएगी।

6. ब्याज

विशेष बांडों पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष बांडों की अदधि प्रारम्भ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह अर्द्धवार्षिक रूप से देय होगा।

विशेष बांडों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना तथा तिरुवनंतपुरम में स्थित लोक ऋण कार्यालयों में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रूपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

7. अभिदान की न्यूनतम राशि तथा अंकित मूल्य

विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रूपए की राशि (नामिनल) के लिए और उसके बाद 10,000 रूपए के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

8. हस्तांतरणीयता

इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद यूटीआई द्वारा विशेष बांडों को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

9. सांविधिक उपबंध

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड लोक ऋण अधिनियम, 1944 और उसके तहत निर्मित लोक ऋण नियमावली, 1946 द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

10. कर कानून की प्रयोज्यता

विशेष बांडों में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

11. बांडों की पात्रता

विशेष बांडों में किए गए निवेश को, यूटीआई द्वारा अथवा बैंक द्वारा, वित्तीय संस्थाओं, निगमों सहित अन्य संख्याओं अथवा अन्य किसी निकाय द्वारा जिसमें बांडों को बाद में पात्र निवेश के रूप में अन्तर्गत किया जाता है और जिसे उन्हें किसी सांविधिक अपेक्षा अथवा प्रशासनिक आदेश, जो भी हो, के अनुपालन में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है, पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव (बज़ट)

अनुबंध

स्थान:
तिथि:

मुख्य महाप्रबंधक,
लोक ऋण कार्यालय,
भारतीय रिजर्व बैंक,
मुम्बई 400 001

विषय:- 6 प्रतिशत भारत सरकार यूटीआई विशेष बांड, 2010

महोदय,

भारत सरकार, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ. 4/21/डब्ल्यू एंड एम/2002 दिनांक 14 जनवरी, 2003 की शर्तों के अंतर्गत हम 700 करोड़ रूपए की समग्र राशि के शीर्षकांकित बांड में अभिदान करने के पात्र हैं।

हमें विशेष बांडों को अभिशासित करने वाली निबंधन तथा शर्तें स्वीकार्य हैं और हम आपसे अपने पक्ष में बांड जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम:
कार्यालय मुहर/स्टाम्प

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2003

Issue of 6 per cent Government of India UTI Special Bonds, 2010.

F. No. 4/21/W&M/2002.— Government of India hereby notifies the issue of 6 per cent Government of India UTI Special Bonds, 2010, (hereinafter briefly described as “Special Bonds”) for an aggregate amount of Rs. 700 crore (nominal) on 14th January, 2003

1. Eligibility for making subscription to the Special Bonds and limits of subscription.

Only Unit Trust of India (hereinafter referred to as ‘UTI’) shall be eligible to subscribe to the Special Bonds and their subscription to the Special Bonds shall be limited to the extent of the amount allotted by the Government of India for meeting their liability on account of shortfalls in assured returns schemes. No other person including any bank, company, corporation or any other body shall be eligible to subscribe to the Special Bonds.

2. Price

The Special Bonds shall be issued at par, i.e. Rs. 10,000 for every Rs. 10,000 (nominal).

3. Application

The Special Bonds shall be issued on application from UTI as per proforma in Annexure.

4. Form of Security

The Special Bonds will be issued by credit to the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Offices of the Reserve Bank of India.

5. Commencement of tenure and date of repayment

The tenure of the Special Bonds will commence from 14th January, 2003. Interest on the Special Bonds will accrue from the date of commencement of tenure. The Special Bonds will be repaid at par on 14th January, 2010.

6. Interest

The Special Bonds will bear interest at the rate of 6 per cent per annum. Interest will be reckoned from the date of commencement of tenure of the Special Bonds and will be payable half yearly.

Interest on the Special Bonds will be payable at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Chennai, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram. Interest will be paid after rounding off the amount of Interest to the nearest rupee.

7. Minimum amount of subscription and denomination

The Special Bonds will be issued for a minimum amount of Rs. 10,000 (nominal) and in multiples of Rs. 10,000 thereafter.

8. Transferability

Notwithstanding what is stated in paragraph 1 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Special Bonds by UTI in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in similar manner.

9. Statutory provisions

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Bonds shall be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed there under.

10. Applicability of Tax law

The value of the investment in the Special Bonds and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

11. Eligibility of Bond

The investment in the Special Bonds would not be considered as an eligible investment by UTI or the banks, other institutions including Financial Institutions, Corporation or any other body to which the bonds are subsequently transferred as eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory requirement or administrative order, as the case may be.

116 UN 3-2

By Order of the President of India
D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)

ANNEXURE**Place:****Date:**

The Chief General Manager
Public Debt Office,
Reserve Bank of India,
Mumbai-400 001

Subject: 6 Per cent Government of India UTI Special Bonds, 2010.

Sir,

In terms of Government of India, Ministry of Finance and Company Affairs, Notification F. No.4/21/W&M/2002 dated 14th January, 2003, we are eligible to subscribe to the captioned bonds for an aggregate amount of Rs. 700 crore.

We accept the terms and conditions governing the Special Bonds and request you to issue the bonds in our favour.

Yours faithfully,

Signature:
Name:
Designation:
Office Seal/Stamp